



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 38] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 30, 1978/माघ 10, 1899

No. 38] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 30, 1978/MAGHA 10, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1978

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सां०कां०वि० 53(अ)—केन्द्रीय सरकार, प्रतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का भाग)
अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उप-धारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय
उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
करते हुए, यह निदेश करती है कि इस से उपावद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट भारत
सरकार के वित्त मंत्रालय के यथास्थिति, राजस्व विभाग या राजस्व और बैंकिंग विभाग की
अधिसूचनाओं में, अथवा सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति से
और संशोधन किए जायेंगे ।

सारणी		
क्रम संख्या	अधिसूचना संख्या	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1. 226/77 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 15 जुलाई, 1977	}	उक्त प्रत्येक अधिसूचना में "मुद्रण" शब्द के स्थान, पर अहा कही वह आया हो, "मुद्रण या रजन भयवा दोनों" शब्द रखे जाएंगे।
2. 136/77 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जून, 1977		
3. 137/77 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जून, 1977		उक्त अधिसूचना में परन्तुक और स्पष्टीकरण का लोप किया जायेगा।

[सं० 21/78-के०उ०णु०/का०म० बी० 17/7/77-टी०आर०यू०
(पी०टी०-II)]

लज्जा राम, उप सचिव

**MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)**

New Delhi, the 30th January, 1978

CENTRAL EXCISES

GSR 53(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby directs that the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, or as the case may be, Department of Revenue and Banking, specified in column (2) of the Table hereto annexed, shall be further amended in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

THE TABLE

S. No.	Notification No. and date	Amendment
(1)	(2)	(3)
1. 226/77-Central Excises, dated the 15th July, 1977.	}	In each of the said notifications, for the word "printing", wherever it occurs, the words "printing or dyeing or both" shall be substituted.
2. 136/77-Central Excises, dated the 18th June, 1977		
3. 137/77-Central Excises, dated the 18th June, 1977.		In the said notification, the provisos and Explanation shall be omitted.

[No. 21/78-CE/F. No. B. 17/7/77-TRU (Pt. II)]

LAJJA RAM, Dy. Secy.